

## Sonbhadra News : ब्रांडेड बोतलों में मिक्स की जा रही थी नकली शराब, पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा

Abhishek Shukla | LipiUpdated: 14 Apr 2021, 11:15:00 PM

लाइसेंसी दुकान के बगल में एक कमरे में चलाई जा रही इस फैक्ट्री से पुलिस ने छापा मारकर 9 बोतलों में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब, 361 खाली बोतलें जिनमें में मिलावट करके अवैध और नकली शराब तैयार की जानी थी। इसके साथ-साथ 586 ढक्कन और रैपर भी पुलिस ने बरामद किया है।



### ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, सोनभद्र

सोनभद्र में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है इसी के अंतर्गत आज मुखबिर की सूचना से ओबरा थाना क्षेत्र में आर्य समाज मंदिर के पास लाइसेंसी दुकान के सेल्समैन को एसओजी और पुलिस की टीम ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब सेल्समैन अंग्रेजी शराब की बोतलों से शराब निकालकर दूसरी ब्रांडेड बोतलों में भरकर नकली और मिलावटी शराब तैयार कर रहा था।

लाइसेंसी दुकान के बगल में एक कमरे में चलाई जा रही इस फैक्ट्री से पुलिस ने छापा मारकर 9 बोतलों में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब, 361 खाली बोतलें जिनमें में मिलावट करके अवैध और नकली शराब तैयार की जानी थी बरामद किया। इसके साथ-साथ 586 ढक्कन और रैपर भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी सेल्समैन को पुलिस ने विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

### सील ढक्कन व रैपर के साथ सेल्समैन को किया गिरफ्तार

सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में कमरे में मुखबिर की सूचना पर एसओजी व क्षेत्राधिकारी ओबरा भास्कर वर्मा के निर्देशन में ओबरा पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर ब्रांडेड शराब के खाली बोतले, ढक्कन, रैपर की खेप बरामद की। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में पकड़ाई खाली बोतले, सील होने वाली रैपर ढक्कन को महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब को महंगी बनाने का खेल जारी था। संभावना यह भी जताई जा रही है इस ब्रांडेड मिलावटी शराब का प्रयोग आगामी पंचायत चुनावों में भी किया जाना था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सेल्समैन प्रकाश रंजन पुत्र गिरेन्द्र गिरी निवासी इमामगंज बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

### एसओजी और स्थानीय पुलिस की सक्रियता से हुई आरोपी की गिरफ्तारी-एसपी

एसपी अमरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान एसओजी प्रभारी व थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे थे पुलिस की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम भी ओबरा थाने पहुंच जांच में जुट गयी है। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार सेल्समैन के खिलाफ सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। छापेमारी से क्षेत्र में अवैध कारोबार करने वालों में हड़कम्प मच गया है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/others/major-action-taken-by-police-during-panchayat-elections/articleshow/82066768.cms>